



भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन कार्यक्रम

प्रलिस के लयः

NARFI, वायु प्रदूषण

मेन्स के लयः

स्वास्थ्य, संरक्षण ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (NIAS), बंगलुरु द्वारा वकिसति "भारत के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क (National Air Quality Resource Framework of India- NARFI)" पर एक राष्ट्रीय मशिन शुरू करने के लयि एक वचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन कयि गया ।

NARFI:

पृष्ठभूमि:

- NARFI भारत के वभिन्न जलवायु कषेत्रों में **वायु प्रदूषण** के मुद्दों को संबोधति करने के लयि सरकार, नगरपालिकाओं, स्टार्ट-अप और नजिी कषेत्रों में नरिणय लेने वालों की मदद करने हेतु एक सूचना तंत्र है ।
- इसे अनुसंधान-आधारति परीकषति सूचना और उद्योग-उन्मुख समाधानों को समझने हेतु आसान प्रारूप में साझा कयि जाएगा ।
- सरकारी प्रतष्ठानों, कार्यानवयनकर्त्ताओं, मीडिया और नीतिनरिमाताओं में सक्रयि जमीनी स्तर के कर्मचारयों जैसे वभिन्न समूहों के लयि तैयार कयि गए अल्पकालकि बुनयादी प्रशकषण मॉड्यूल इस कार्यक्रम के अभन् अंग होंगे ।

उद्देश्य:

- संचार को समृद्ध करने और सामान्य जागरूकता बढ़ाने में मदद करना ।

मॉड्यूल: NARFI नमिनलखिति पाँच मॉड्यूल के इर्द-गरिद वकिसति होंगा:

- **थीम-1:** उत्सर्जन स्रोत, एयर शेड और शमन ।
- **थीम-2:** मानव स्वास्थ्य और कृषि पर प्रभाव ।
- **थीम-3:** एकीकृत नगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी कार्यक्रम ।
- **थीम-4:** लोक-संपर्क, सामाजकि आयाम, संक्रमण रणनीति और नीति ।
- **थीम-5:** समाधान, सार्वजनकि-उद्योग साझेदारी, पराली जलाना और नई तकनीक ।

महत्त्व:

- यह ज्ञान नरिमाण, बुनयादी ढाँचे और औद्योगकि संरचनाओं के वकिस तथा देश में मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने में सकषम होंगा ।
- यह वायु गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, इसके प्रभाव का अध्ययन करने और वज्ज्ञान आधारति समाधानों को लागू करने के लयि एक सर्व-समावेशी मार्गदर्शकि प्रदान करेगा ।

वायु प्रदूषण:

परचिय:

- वायु प्रदूषण कसिी भी रासायनकि, भौतिक या जैवकि कारकों द्वारा अन्तः या बाहरी वातावरण का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतकि वशिषताओं को संशोधति करता है ।
- घरेलू दहन उपकरण, मोटर वाहन, औद्योगकि कार्य और वनाग्निवायु प्रदूषण के सामान्य स्रोत हैं ।

प्रदूषक:

- **प्राथमकि:** वे प्रदूषक जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं या कसिी वशिषित स्रोत से सीधे उत्सर्जति होते हैं, उन्हें

प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। उदाहरण- **कणिक तत्त्वों (PM)**, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आदि।

- ये प्रदूषक फेफड़ों के मार्ग में और रक्तप्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम हैं, जिससे हृदय, **मसृष्टिकवाहकीय** और **श्वसन** संबंधी प्रभाव पड़ते हैं।
- द्वितीयक:** प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण- **ओजोन** और माध्यमिक कार्बनिक एरोसोल आदि।

■ वायु प्रदूषण के स्रोत:

- जीवाश्म ईंधन का जलना:** अधिकांश प्रदूषक जीवाश्म ईंधन या लकड़ी को जलाने, ड्राइविंग, हीटिंग, विद्युत संयंत्र और उद्योग से उत्पन्न होते हैं।
 - कई मानव निर्मित कारकों से, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण धूल, कचरा जलाने से गंभीर प्रदूषण होता है।
 - कण ब्लैक कार्बन, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, अमोनिया या खनजि धूल से बने हो सकते हैं।
- कृषि और संबद्ध स्रोत:** खेती प्रदूषण का एक ऐसा स्रोत है, जिसमें पशुधन खाद से अमोनिया और उर्वरक उत्सर्जित होते हैं साथ ही धूल कण बनते हैं, खासकर वसंत के समय में जब फसलें बोई जाती हैं और मृदा की जुताई की जाती है।
 - इसके अलावा, खासकर सर्दियों में पराली जलाना भी उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है।
- प्राकृतिक स्रोत:** इसके अलावा बाहरी वायु प्रदूषण के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे- धूल भरी आँधी।

■ संबंधित पहल:

- श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना**
- सफर - SAFAR (वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली)**
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग।**
- भारत स्टेज (बीएस) VI मानदंड।**
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड:**
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)**
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)**
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981**
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)**

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2011)

1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. नाइट्रोजन के ऑक्साइड
3. सल्फर के ऑक्साइड

उपर्युक्त में से कौन-सा/से ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से उत्सर्जित होते हैं/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कोयला आधारित बिजली संयंत्र वायुमंडलीय वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता हैं और ग्लोबल वार्मिंग और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जो अंततः फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
- कोयले के जलने से निकलने वाले जहरीले यौगिकों में शामिल हैं:
 - कार्बन के ऑक्साइड (CO_x), कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड।
 - नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x)।
 - सल्फर के ऑक्साइड (SO_x)।
 - फ्लाई ऐश।
- मरकरी, कैडमियम और लेड जैसे तत्व भी उत्सर्जित होते हैं जो स्वास्थ्य के लिये भी खतरनाक होते हैं। अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।

स्रोत: पी.आई.बी

